

प्रेस नोट थाना सिरसागंज दिनांक 16-04-2021 जनपद फ़िरोज़ाबाद ।

थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12-04-21 को अखैराम की हत्या कर शव को रेलवे लाइन पर फेंकने वाले तीनों अभियुक्तों को आलाकत्ल सहित किया गिरफ्तार ।

- अभियुक्ता श्रीमती गुड्डी द्वारा अपने प्रेमी मृतक अखैराम की, दूसरे प्रेमी मुनेश व उसके साथी शिवराम के साथ मिलकर की गयी थी हत्या ।
- अखैराम की हत्या कर साक्ष्य छुपाने व हत्या को आत्महत्या प्रदर्शित करने के उद्देश्य से शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था ।
- अभियुक्ता गुड्डी ने 40 हजार रुपये की सुपारी देकर दूसरे प्रेमी व उसके साथी से करायी थी हत्या ।
- अभियुक्ता गुड्डी देवी विगत 15 – 16 वर्षों से अपने पति से अलग रहकर प्रेमी अखैराम (मृतक) के साथ रह रही थी ।

दिनांक 12.04.2021 को थाना सिरसागंज क्षेत्र में रेलवे लाइन फाटक की पटरी वहद ग्राम कुढीना पर एक शव मिला जिसकी पहचान अखैराम सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी नगला हीरे थाना जसराना जिला फ़िरोज़ाबाद उम्र करीब 42 वर्ष के रूप में हुई जिस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना सिरसागंज पर मु0अ0सं0 203/21 धारा 302/201 भादवि0 दो व्यक्ति नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फ़िरोज़ाबाद द्वारा अखैराम की हत्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुये अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज मय पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 15.04.2021 को NH-2 करहल चौराहा से अभियुक्ता 1.श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी पेशकार नि0 नगला पीथे थाना घिरोर जनपद मैनपुरी तथा ग्राम भारौल देशी शराब ठेका के पास से दो नफर अभियुक्त 2-मुनेश पुत्र वसन्त लाल निवासी कुढीना थाना सिरसागंज जिला फ़िरोज़ाबाद, 3- शिवराम दिवाकर पुत्र नाथूराम निवासी नगला खेरी कुढीना थाना सिरसागंज जनपद फ़िरोज़ाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशांदेही पर आला कत्ल (एक अदद अंगोछा सफेद व एक जोडा चप्पल घटना के समय मृतक द्वारा पहनी हुई) बरामद किया गया है । अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी पेशकार नि0 नगला पीथे थाना घिरोर जनपद मैनपुरी
- 2- मुनेश पुत्र वसन्त लाल निवासी कुढीना थाना सिरसागंज जिला फ़िरोज़ाबाद ।
- 3- शिवराम दिवाकर पुत्र नाथूराम निवासी नगला खेरी कुढीना थाना सिरसागंज जिला फ़िरोज़ाबाद ।

बरामदगी:-

- 1-मृतक का अंगोछा जिसे मुल्जिमान द्वारा आलाकत्ल के रूप में प्रयोग लिया गया ।
- 2-मृतक की चप्पल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-श्री गिरीशचन्द्र गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना सिरसागंज जनपद फ़िरोज़ाबाद ।
- 2-उ0नि0 श्री आलोक कुमार दीक्षित चौकी प्रभारी अरॉव थाना सिरसागंज जनपद फ़िरोज़ाबाद ।
- 3-उ0नि0 श्री रनवीर सिंह थाना सिरसागंज जनपद फ़िरोज़ाबाद ।
- 4- का.952 रामजीलाल , 5-का.84 राजेश कुमार , 6-का.1321 परमानन्द थाना सिरसागंज जनपद फ़िरोज़ाबाद ।
- 7-204 विक्रम सिंह, 8-का.1311 प्रभू दयाल, 9-म0का0 1373 नीता थाना सिरसागंज जनपद फ़िरोज़ाबाद ।